

SKUAST Jammu: वीसी प्रो. जेपी शर्मा बोले- आने वाला समय कृषि सेक्टर का, भारत बनेगा आत्मनिर्भर



जम्मू, जागरण संवाददाता। शेर-ए-कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नालॉजी जम्मू (स्कास्ट) के वाइस चांसलर प्रो. जेपी शर्मा ने कहा कि आने वाला समय कृषि सेक्टर का है। इसी कृषि से ही देश आत्मनिर्भर बनेगा और लोगों में भी खुशहाली आएगी।

वह शनिवार को चट्टा कैम्पस में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उनका ध्यान किसानों की ओर है कि वे खेती की बारीकियों को समझें। अपना विकास करें और देश को मजबूर बनाएं। इन्हीं किसानों को खेती की तकनीक से जोड़ने के लिए स्कास्ट चट्टा कैम्पस में पांच दिवसीय किसान मेले का आयोजन 16 मार्च से करवा रहा है। जिसमें ऐसी सब बातों का समावेश होगा जोकि किसानों को आधुनिक खेती के लिए प्रेरित करेगा।

बाहरी राज्य जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश से भी किसान इस मेले में शिरकत करेंगे। जम्मू के किसानों की उन्नत किसानों से मुलाकात होगी जिन्होंने अपनी मेहनत से नाम और पैसा कमाया। वाइस चांसलर ने कहा कि जम्मू कश्मीर में किसानों के पास थोड़ी थोड़ी जमीन है और हमें ऐसे उपाय करने हैं कि इसी से ही इनको अच्छी आमदनी हासिल हो। उन्होंने देश के कई होनहार किसानों की मिसालें भी दीं। मौके पर डायरेक्टर रिसर्च जगपाल शर्मा भी उपस्थित थे।

किसान मेले में इस बार 200 स्टाल लगाए जाएंगे जिसके जरिए किसानों को आधुनिक खेती की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें से 40 स्टाल किसानों के ही होंगे। मेले में खेती से संबंधित मशीनें, यंत्र उपलब्ध होंगे ही वहीं विभिन्न विभाग जैसे कृषि, बागवानी, पशुपालन, नाबार्ड भी अपनी अपनी गतिविधियों, योजनाओं का बखान यहां पर करेगा।

किसानों के लिए चलेंगी मुफ्त बसें

मेले स्थल तक किसानों को ले जाने के लिए स्कास्ट सतवारी से चट्टा तक वाहनों का इंतजाम कर रहा है। यात्री वाहन लगाए जाएंगे जोकि किसानों को मुफ्त सेवाएं देंगे। वाइस चांसलर प्रो. जेपी शर्मा ने कहा कि यह इसलिए ताकि अधिक से अधिक किसान इस मेले में शिरकत कर सकें।

ग्रामीण खेलों का भी आयोजन होगा

इस मेले में ग्रामीण खेलें भी आयोजित होंगी ताकि इसमें किसान भाग लेकर अपनी खेल प्रतिभा दिखा सके। इन खेलों के आयोजन के लिए स्कास्ट ने खास बंदोबस्त किए हैं। कबड्डी, गोला फेंक, पंजा लड़ना, कुश्ती, रस्साकशी, 100 मीटर की दौड़, वालीबाल आदि खेलों का आयोजन होगा।

मेले में होंगे विभिन्न कार्यक्रम

19 मार्च को उन्नत किसानों की गोष्ठियां आयोजित होंगी जिसमें यह किसान अपनी सफलता की कहानियां सुनाएंगे व दूसरे किसानों को प्रेरित करेंगे। वहीं अगले दिन जम्मू कश्मीर के उन्नत किसानों को सम्मानित किया जाएगा। वहीं एक दिन पशु मेले का आयोजन होगा